

अवैध शराब के बड़े कारोबार का भंडाफोड़, 5 हजार लीटर नकली शराब बरामद, 6 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में

Home |

Crime News

By News Wing On Aug 20, 2019



Ranchi: रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी पंचायत के फेटा गांव में साँस बनाने की कंपनी की आड़ में नकली शराब बनायी जा रही थी. रांची पुलिस ने मंगलवार को इस पर कार्रवाई करते हुए बड़े अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी कर लगभग 5 हजार लीटर नकली शराब और महंगी शराब की बोटलें बरामद की हैं. छापेमारी के दौरान 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

एसएसपी अनीश गुप्ता को सूचना मिली थी कि रातू इलाके से लगातार नकली शराब की सप्लाई हो रही है. सूचना के आधार पर मामले की छानबीन के दौरान रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी पंचायत के फेटा गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री होने के सबूत मिले. पुलिस को यह जानकारी मिली कि इलाके में एक फैक्ट्री है, जहां साँस बनाने के नाम पर अवैध नकली शराब बनायी जा रही है. सटीक सूचना मिलने के बाद रातू पुलिस की टीम ने मंगलवार को साँस फैक्ट्री में छापेमारी कर बड़े पैमाने नकली शराब बरामद की.

ब्रांडेड शराब की बोटल में भरी जा रही थी नकली शराब

छापेमारी के दौरान पाया गया कि हर ब्रांड की शराब की बोटलों में नकली शराब भरी जा रही थी. साँस के नाम पर खोली गयी फैक्ट्री में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था. पुलिस ने मौके से लगभग 5000 लीटर अवैध शराब बरामद किया है. नकली शराब की पैकेजिंग कर रहे चार लोग हिरासत में लिये गये हैं. उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस के अनुसार यहां बड़े पैमाने पर नकली शराब बनायी जाती थी. बाहर से स्प्रिट मंगा कर उसमें एक हिस्सा असली शराब और बाकी में स्प्रिट भर नयी बोटलों में महंगी शराब के रैपर लगा कर बाजार में बेच दिया जाता था.

पहले भी बरामद हो चुकी है शराब

- 13 अगस्त को उत्पाद विभाग ने कांके थाना क्षेत्र के बोरिया में कार्रवाई कर अवैध रूप से देसी शराब बनाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने 4000 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त किया था. पुलिस ने राजू साव और पिंटू साव के पास से अवैध शराब का स्टॉक भी बरामद किया था. बंद घर में यह गोरखधंधा चल रहा था.
- 20 अगस्त को चुटिया थाना क्षेत्र में चुटिया मेन बाजार में वरीय अधिकारियों की सूचना पर चुटिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने छापेमारी कर भारी मात्रा में एक दुकान से अवैध देशी शराब और अंग्रेजी शराब बरामद किया और अवैध शराब बेचने वाले शिवनारायण साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
- 6 अगस्त को हेथू के हराटांड में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 700 लीटर स्प्रिट बरामद किया था. स्प्रिट अवैध रूप से बनायी गयी शराब में मिलाने के लिए लाया गया था.

नहीं रुक रहा है अवैध शराब का कारोबार

रांची पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई किये जाने के बाद भी अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है. हाल के दिनों में देखे तो उत्पाद विभाग और पुलिस के द्वारा कांके, रातू चुटिया और हेथू में भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गयी, इसके बाद भी राजधानी रांची में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है. कार्रवाई के कुछ दिनों तक है इसका असर देखने को मिलता है जिसके बाद फिर से अवैध शराब का कारोबार करनेवाले लोग सक्रिय हो जाते हैं.

झोपड़ीनुमा होटलों में चल रहा है अवैध शराब का कारोबार

राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित झोपड़ीनुमा होटलों में अवैध शराब पिलाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. इसके लिए होटल संचालक शराब पीने के लिए पहुंच रहे ग्राहकों से मोटी रकम वसूल रहे हैं. होटल संचालकों की कार्यशैली को देख कर यह आसानी से समझा जा सकता है कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है. मुख्य चौक-चौराहों से चंद कदमों की दूरी पर स्थित झोपड़ीनुमा कई ऐसे होटल हैं, जहां शराबियों का जमावड़ा देर शाम तक लगा रहता है. इन होटलों में दिन में भी बेधड़क ग्राहकों को शराब पिलायी जाती है. ग्राहक भी खुलेआम टेबलों पर शराब पीते नजर आते हैं. सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन होटलों के आसपास दिन में कई बार पीसीआर और पुलिस पेट्रोलिंग वैन घूम कर निकल जाती है. पुलिस की नजर इस पर नहीं पड़ती है.

रांची में 115 लोग करते हैं अवैध शराब का कारोबार

रांची में 115 लोग अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं, जिनमें डोरंडा, नामकुम, लोअर बाजार, कांके, कोतवाली, लालपुर, सुखदेवनगर, पंडरा, धुर्वा, तुपुदाना, रातू, नगड़ी, गोंदा, चुटिया, सदर थाना और ओरमांड़ी थाना क्षेत्र शामिल है. शराब कारोबारी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं. इस बात का खुलासा विशेष शाखा की ओर से जारी रिपोर्ट में हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, अवैध देसी शराब के निर्माण और बिक्री में लगे सभी लोग निगम क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फैले हुए हैं. इनमें कई ऐसे लोग हैं, जो इस अवैध कारोबार से जुड़े कई कांड में पूर्व में चार्जशीट भी हो चुके हैं.

लगातार नहीं चलती है शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई

रांची पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा शराब कारोबारी के ऊपर लगातार कार्रवाई नहीं की जाती है. जब स्पेशल ब्रांच के द्वारा संबंधित क्षेत्रों में शराब का कारोबार होने की रिपोर्ट जारी की जाती है तो उस क्षेत्र की पुलिस खानापूति के नाम पर कार्रवाई करती है. फिर कुछ दिनों के बाद शांत हो जाती है. जिसका फायदा अवैध शराब का कारोबार करनेवाले कारोबारी उठाते हैं और फिर से शराब के कारोबार में संलिप्त हो जाते हैं.

Source: <https://newswing.com/5-thousand-liters-of-fake-liquor-recovered-6-people-detained-by-police/126659/>